

जैन लक्षणावली भाग-३ (०१६०२३)
सम्पादक – बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

मुख्य टाइटल
प्रकाशकीय
सम्पादकीय
Foreword
प्रस्तावना

कपित्थदोष -----	१
पर्व पर्वाग -----	१
कांक्षा व काडक्षा -----	१
गण व गच्छ-----	२
ग्रन्थि-----	२
छेद -----	३
छेदोपस्यापक -----	४
तदभवमरण -----	५
त्रस -----	५
दर्शन -----	६
दिव्यध्वनि -----	८
धर्म -----	९
नय -----	११
नाग्न्यपरीषहजय -----	१४
निगोद जीव -----	१४
निर्ग्रन्थ -----	१५
निर्विचिकित्स -----	१६
परिभोग -----	१८
पादपोपगमन -----	१९
पुलाक -----	२०
प्रवचनवत्सलता -----	२०
बकुश -----	२०
ब्रह्मचर्याणुव्रत -----	२१
भोगोपभोगपरिमाण -----	२२
यथाप्रवृत्तकरण -----	२२
याचनापरीषहजय -----	२३
रसत्याग रसपरित्याग -----	२४
वलन्मरण वलाकामरण वलायमरण -----	२५

विहायोगति नामकर्म -----	२५
वृत्तिपरिसंख्यानतप-----	२५
व्यवहारनय -----	२५
श्रमण-----	२६
सत्य -----	२७
असत्य -----	२७
समभिरुद्धनय -----	२८
सम्यकत्व -----	३०
संग्रहनय -----	३३
संसारपरीत -----	३५
सामायिक -----	३६
समायिक प्रतिमा -----	३९
सूत्र -----	४०
सूत्ररुचि -----	४१
सोपक्रमायु -----	४१
स्तनदोष -----	४२
स्त्रीवेद -----	४२
स्थापनाकर्म -----	४३
स्थावर -----	४३
स्थिरनामकर्म -----	४४
ह्रस्व -----	४४
प्रस्तावनागत विशिष्ट लक्ष्य शब्दों की अनुक्रमणिका -----	४५
शुद्धिपत्रक -----	४६
जैन लक्षणावली जैन पारिभाषिक शब्द-कोष -----	७२९
प -----	७२९
फ -----	८०१
ब -----	८०२
भ -----	८३०
म -----	८७३
य -----	९४१
र -----	९५२
ल -----	९६४
व -----	९७७
श -----	१०४७
स -----	१०७५

